

Churi to Karahav

FDR

**Schedule XLV Form No. 134.**

JHANJHAR PUR

DIVISION

MADHEPUR

SUB-DIVISION

1758

**Measurement Book**

INDEX	PAGE
क्रमांकित क्रिया	१०८ वाले की बज्जे
मापी उस्से में	५७८ कारा अंकित
१०८ पन्ने हैं जो की कौ. संदर्भ	५७८
अनियंत्र ५८५२ को निर्णित	
क्रिया गाता है	

Ward

## कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग

झंझारपुर

~~Miner~~  
0313121

1.

Name of work -

Situation of work -

Agency by which work is executed -

Date of measurement -

No. and date of agreement.

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurements relating to each work).

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
CH - FDR					

Name of Work - Repair of flood damage road from Churi to Karahar under FDR in Madhepur Block

Agency - Departmental

Date of measurement/Entry - 10/5/21

Authority - S.E.T.A Letter No: 934/06/5/21

(i) Providing and filling of

brickbats in ditches/damaged embankment including cost of brickbats and labour.

$$\text{ch } 180 \text{ m} \quad 1 \times 2.50 \times 2.50 \times 1.50 = 9.375 \text{ m}^3$$

$$\text{ch } 1900 \text{ m} \quad 2 \times 3.50 \times \frac{1.8+3}{2} \times 1.90 = 31.97 \text{ m}^3$$

$$\text{ch } 2600 \text{ m} \quad 1 \times 15.0 \times 5.0 \times 0.45 = 33.75 \text{ m}^3$$

$$\text{ch } 2600 \text{ to } 3100 \text{ m} \quad 1 \times 15.0 \times 4.50 \times \frac{0.6+1.5}{2} = 70.875 \text{ m}^3$$

$$\text{II} \quad 1 \times 35.0 \times 5.0 \times \frac{0.6+1.2}{2} = 157.50 \text{ m}^3$$

$$\text{II} \quad 1 \times 5.0 \times \frac{4+6}{2} \times 1.20 = 30.00 \text{ m}^3$$

$$\text{II} \quad 1 \times 20.0 \times 4.6 \times 0.30 = 24.00 \text{ m}^3$$

$$\text{Total} = 357.42 \text{ m}^3$$

$$\text{C Rs } 1867.76/\text{m}^3 = \text{Rs } 667574.77$$

$$\text{Add } 12\% \text{ GST} = \text{Rs } 80108.97$$

$$\text{Add } 1\% \text{ L.C.} = \text{Rs } 6675.77$$

Continuation

**Sch. XLV-Form No. 134**

## **Continuation**

Balhi to Palwalpur

FDR

**Schedule XLV Form No. 134.**

THANJARPUR

DIVISION

MADHEPUR

SUB-DIVISION

1490

**Measurement Book**

INDEX	PAGE
प्राप्ति	८५
शापी पुस्तक ऐंग	१०८
१०८ पृष्ठी हैं जो	१०८
तापि विभाग नवीनी	१०८
१०८ लाइट	१०८
<hr/>	
कार्यपालक अभियंता	१०८
ग्रामीण कार्य विभाग	१०८
झांझारपुर	१०८
<hr/>	
मासिक	१०८
१०८	१०८

1.

Name of work -  
 Situation of work -  
 Agency by which work is executed -  
 Date of measurement -  
 No. and date of agreement.  
 (These four lines should be repeated at the commencement of the measurements relating to each work).

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
CH - FDR					
<u>Name of work — Repair of flood damage road from Balthi to Palwalpur</u>					
<u>Agency — Departmental</u>					
<u>Authority — S.E.T.A Letter no.: 934</u>					
<u>Date of measurement/Entry — 06/05/21</u>					
<u>1) Providing and fitting of brick bats in ditches/damaged embankment including cost of</u>					
<u>Brick bats and labour.</u>					
Ch 480M	1	$1.00 \times 2.50 \times 0.45 = 1.125 m^3$			
Ch 660M	1	$2.00 \times 2.50 \times 2.50 = 12.50 m^3$			
Ch 670M	1	$1.95 \times 2.50 \times 0.45 = 302.738 m^3$			
Ch 1100M	1	$2.40 \times 3.00 \times 0.60 = 43.20 m^3$			
Ch 1100M	1	$2.80 \times 3.00 \times 0.35 = 29.40 m^3$			
		Total = 389.963 m <sup>3</sup>			
		$\text{Rs } 1867.76/m^3 = \text{Rs } 726489.53$			
		Add 12.1.6.S.T. = Rs 87178.74			
		Add 1.1. L.C. = Rs 7264.89			
		Add S.F. C/I.D.I. = Rs 41346.76			
		Total Rs 862279.92			
		Say Rs 8,62,799.00			
		<u>Q</u> <u>15121</u> <u>W.L.C</u> <u>10.4 P.C</u> <u>275</u>			
		JL			

Continuation